

## जन सुरक्षा योजना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (Minister Of Public Safety Scheme Security Insurance Plan – Government Plans)

### उद्देश्य

• किसी भी दुर्घटना बीमा के तहत न आने वाली जनसंख्या को 12 रु. प्रति वर्ष के अत्यंत सस्ते प्रीमियम (बीमें की किस्त) वाली इस योजना के तहत कवर कर वस्तुतः करना इस योजना का प्रमुख लक्ष्य है।

### अपेक्षित लाभार्थी

- 18 से 70 वर्ष के आयु समूह के लोगों के लिए उपलब्ध।
- जिनके पास बचत बैंक खाता है।
- जो 31 मई को या उस से पहले, वार्षिक नवीकरण के आधार पर 1 जून से 31 मई तक की कवरेज अवधि के लिए, इससे जुड़ने और अपने खाते से ऑटो (विशेषतः/स्वतः) डेबिट (खाते में से निकाली गई रकम) की सुविधा के लिए सहमति देंगे।

### मुख्य विशेषताएं

- दुर्घटना में मौत एवं स्थायी पूर्ण विकलांगता के लिए 2 लाख रु. का जोखिम कवरेज उपलब्ध होगा।
- स्थाई आंशिक विकलांगता के लिए 1 लाख रु.
- कोई भी व्यक्ति जो इस योजना से किसी भी समय खुद को अलग कर लेता है, वह भविष्य में वार्षिक प्रीमियम चुकाकर कभी भी इससे जुड़ सकता है।
- इस योजना से जुड़ने की प्रारंभिक तिथि अर्थात 1 मई से लेकर प्रधानमंत्री द्वारा इसके शुरू किए जाने की तिथि अर्थात 9 मई तक कुल 4.42 करोड़ लों प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत जुड़ चुके थे।